



दूरभाष: 05862-270695 फ़ैक्स-05862-270695

**केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर**

**KENDRIYA VIDYALAYA SITAPUR**

सरोजिनी वाटिका, सिविल लाइन, सीतापुर

Sarojini Vatika, Civil Lines, Sitapur

जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश पिन-261001

District-Sitapur Uttar Pradesh Pin-261001

स्थापित वर्ष-1992, विद्यालय कोड-1755 स्टेशन कोड-415

Website: [www.kvsitapur.edu.in](http://www.kvsitapur.edu.in)

CBSE AFFILIATION NO - 2100083

CBSE SCHOOL CODE - 09034

ईमेल : [kvsitapur@kvsedu.org](mailto:kvsitapur@kvsedu.org)

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)  
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: एफ 17550350 / 2015-16 / के.वि.सीतापुर./ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

दिनांक : 11.11.2016

## केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर

**विषय : 11 नवम्बर 2016 को नेशनल एजुकेशन डे मनाने के संबंध में ।**

केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर में दिनांक 11.11.2016 को 'राष्ट्रीय शिक्षा दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए। कार्यक्रम के प्रारम्भ में विद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो पर मालार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात् विद्यालय के कक्षा 11वीं ब की छात्रा वर्तिका सिंह ने मौलाना आजाद के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। विद्यालय के शिक्षक श्री रजत कुमार ने मौलाना आजाद को एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं दार्शनिक बताते हुए शिक्षा मंत्री के रूप में उनके द्वारा किये गए कार्यों को रेखांकित किया। विद्यालय के प्राचार्य श्री सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को भारत के प्रथम शिक्षामंत्री के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी।

विद्यालय में उच्च माध्यमिक वर्ग के लिए 'शिक्षा का महत्त्व' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गयी तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए सदनवार नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

विद्यालय में 'बालिका शिक्षा' विषय पर सेमिनार एवं "शिक्षण में आई० सी० टी० (ICT) का प्रभावशाली उपयोग" पर श्रीमती शशीलता, पी० जी० टी (संगणक) के नेतृत्व में कार्यशाला भी आयोजित की गई।

कार्यक्रमों का संचालन श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव ने किया।

भवदीय

प्राचार्य